



### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2012             | 2013             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 30 नवम्बर        | 22 नवम्बर        | 29 नवम्बर        | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>11,258.58</b> | <b>12,543.75</b> | <b>12,450.38</b> | <b>-93.37</b> | <b>1,191.80</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 11,258.41        | 12,543.63        | 12,450.25        | -93.38        | 1,191.84        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.17             | 0.12             | 0.13             | —             | -0.04           |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 106.84           | 1.00             | 1.01             | 0.01          | -105.83         |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —             | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 2,812.78         | 3,139.62         | 3,278.68         | 139.06        | 465.90          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 31.80            | 32.08            | 31.86            | -0.22         | 0.07            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 140.60           | 156.69           | 157.49           | 0.80          | 16.89           |
| 2.7 अन्य                                | 127.82           | 181.25           | 219.81           | 38.57         | 91.99           |
| 3 अन्य देयताएं                          | 7,049.32         | 9,118.90         | 8,957.03         | -161.87       | 1,907.71        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>21,528.16</b> | <b>25,173.73</b> | <b>25,096.69</b> | <b>-77.04</b> | <b>3,568.52</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 14,220.65        | 16,361.86        | 16,515.02        | 153.17        | 2,294.38        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,516.01         | 1,303.57         | 1,303.57         | —             | -212.44         |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,461.62         | 6,776.03         | 6,583.47         | -192.55       | 1,121.86        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 1.95             | —                | —                | —             | -1.95           |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 228.53           | 427.37           | 391.01           | -36.37        | 162.48          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.8 अन्य                                | 42.74            | 26.00            | 27.70            | 1.70          | -15.04          |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —               |
| 5.2 खजाना                               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —             | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 43.47            | 265.70           | 262.72           | -2.98         | 219.25          |

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                      | 29 नवम्बर 2013 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |                |                 |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                         |                   |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2013 की समाप्ति पर |                | वर्ष           |                 |
|                                         | बिलियन ₹          | मिलि. अम. डॉलर   | बिलियन ₹                   | मिलि. अम. डॉलर | बिलियन ₹                 | मिलि. अम. डॉलर | बिलियन ₹       | मिलि. अम. डॉलर  |
|                                         | 1                 | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                      | <b>18,154.7</b>   | <b>291,300.9</b> | <b>147.6</b>               | <b>5,037.2</b> | <b>2,270.5</b>           | <b>-745.3</b>  | <b>2,096.2</b> | <b>-3,208.8</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां              | 16,455.7          | 263,735.9        | 153.7                      | 5,071.2        | 2,329.4                  | 4,010.0        | 2,278.2        | 3,723.4         |
| 1.2 स्वर्ण                              | 1,303.6           | 21,227.3         | —                          | —              | -93.8                    | -4,464.7       | -212.4         | -6,575.8        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                   | 276.6             | 4,432.9          | -2.0                       | 12.2           | 41.2                     | 105.3          | 35.1           | 3.2             |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति | 118.8             | 1,904.8          | -4.1                       | -46.2          | -6.3                     | -395.9         | -4.7           | -359.6          |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 29 नवम्बर 2013 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,107.9 बिलियन | 2013      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            | 16 नवम्बर | 17 नवम्बर | 18 नवम्बर | 19 नवम्बर | 20 नवम्बर | 21 नवम्बर | 22 नवम्बर | 23 नवम्बर | 24 नवम्बर | 25 नवम्बर | 26 नवम्बर | 27 नवम्बर | 28 नवम्बर | 29 नवम्बर |
|                                                                                                            | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                               | 3,238.7   | 3,238.7   | 3,104.9   | 3,093.3   | 3,094.0   | 3,115.1   | 3,139.8   | 3,198.7   | 3,198.7   | 3,156.7   | 3,152.1   | 3,264.2   | 3,267.2   | 3,278.8   |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                               | 104.2     | 104.2     | 99.9      | 99.5      | 99.6      | 100.2     | 101.0     | 102.9     | 102.9     | 101.6     | 101.4     | 105.0     | 105.1     | 105.5     |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                            | 15 नवम्बर<br>2013 को बकाया | निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                            | पखवाड़ा                       | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                            |                               | 2012-2013            | 2013-2014      | 2012           | 2013           |
|                                               | 1                          | 2                             | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>     |                            |                               |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां       | 719.9                      | 12.8                          | -48.2                | -126.7         | 96.3           | -74.5          |
| 1.2 बैंकों से उधार                            | 338.9                      | 39.9                          | -83.8                | -54.7          | -36.8          | 103.5          |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 48.5                       | 3.0                           | 6.5                  | -42.4          | -30.9          | -19.5          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                |                            |                               |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 73,897.5                   | -354.2                        | 4,971.3              | 6,393.0        | 7,550.2        | 9,835.4        |
| 2.1क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                            | -0.5                          | 8.4                  | 9.5            | 13.4           | 15.4           |
| 2.1.1 मांग                                    | 6,555.6                    | -211.0                        | -295.1               | -67.4          | 358.4          | 597.4          |
| 2.1.2 मीयादी                                  | 67,341.9                   | -143.3                        | 5,266.4              | 6,460.3        | 7,191.8        | 9,237.9        |
| 2.2 उधार                                      | 2,567.9                    | 91.0                          | -25.4                | 351.3          | 362.7          | 528.7          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 4,054.1                    | 15.5                          | -64.7                | -62.3          | 179.4          | 384.9          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                 | <b>407.8</b>               | <b>-6.2</b>                   | <b>89.6</b>          | <b>191.9</b>   | <b>144.9</b>   | <b>230.7</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष</b> | <b>3,595.3</b>             | <b>-207.1</b>                 | <b>-124.7</b>        | <b>367.7</b>   | <b>-498.9</b>  | <b>126.0</b>   |
| 4.1 पास में नकदी                              | 453.2                      | 5.6                           | 103.5                | 48.2           | 80.5           | -11.7          |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष               | 3,142.2                    | -212.6                        | -228.2               | 319.5          | -579.5         | 137.7          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>      |                            |                               |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                    | 1,069.3                    | -3.0                          | 90.7                 | 108.5          | 255.5          | 272.0          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि        | 232.9                      | 35.5                          | -62.4                | -63.2          | -24.0          | 62.5           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                          | 119.4                      | 0.0                           | -62.4                | -7.5           | -3.7           | 46.0           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                             | 476.9                      | 4.6                           | 14.5                 | -338.9         | 13.2           | -241.5         |
| <b>6 निवेश</b>                                | <b>22,081.1</b>            | <b>131.0</b>                  | <b>2,251.4</b>       | <b>2,020.1</b> | <b>2,507.9</b> | <b>2,451.9</b> |
| 6.1क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                            | 0.6                           | 13.0                 | 10.1           | 14.6           | 12.5           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                   | 22,057.5                   | 131.0                         | 2,255.4              | 2,020.9        | 2,523.3        | 2,451.9        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में            | 23.7                       | -0.1                          | -4.0                 | -0.9           | -15.4          | -0.0           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>56,499.1</b>            | <b>-89.4</b>                  | <b>2,806.6</b>       | <b>3,894.5</b> | <b>7,038.4</b> | <b>7,574.0</b> |
| 7.1क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                            | -0.2                          | 6.1                  | 7.4            | 16.8           | 15.5           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 1,017.9                    | -9.9                          | 268.9                | 53.7           | 294.8          | -64.0          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 55,481.3                   | -79.5                         | 2,537.8              | 3,840.9        | 6,743.7        | 7,638.0        |
| 7 ख.1 ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट           | 54,470.9                   | -48.3                         | 2,822.2              | 3,879.1        | 6,809.2        | 7,288.9        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                       | 370.3                      | 8.5                           | 60.3                 | 121.7          | 84.9           | 146.5          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                | 982.8                      | -26.0                         | -52.5                | -111.8         | 112.1          | 55.4           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                     | 228.3                      | -6.4                          | -31.4                | 13.3           | -1.2           | 48.0           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                | 446.9                      | -17.3                         | 8.0                  | -7.8           | 33.4           | 35.1           |

## 5. अनुपात और दर

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2012       | 2013       |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     | 30 नवम्बर  | 1 नवम्बर   | 8 नवम्बर    | 15 नवम्बर   | 22 नवम्बर   | 29 नवम्बर   |
|                                                     | 1          | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |            |             |             |             |             |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.25       | 4.00       | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00      | 23.00      | 23.00       | 23.00       | 23.00       | 23.00       |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 5.10       | 5.12       | ..          | 4.87        | ..          | ..          |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 76.97      | 76.21      | ..          | 76.46       | ..          | ..          |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 65.05      | 59.05      | ..          | 60.92       | ..          | ..          |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 30.55      | 29.56      | ..          | 29.88       | ..          | ..          |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 43.17      | 28.00      | ..          | 31.60       | ..          | ..          |
| <b>दर</b>                                           |            |            |             |             |             |             |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 8.00       | 7.75       | 7.75        | 7.75        | 7.75        | 7.75        |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 7.00       | 6.75       | 6.75        | 6.75        | 6.75        | 6.75        |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 9.00       | 8.75       | 8.75        | 8.75        | 8.75        | 8.75        |
| बैंक दर                                             | 9.00       | 8.75       | 8.75        | 8.75        | 8.75        | 8.75        |
| आधार दर                                             | 9.75/10.50 | 9.80/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 8.50/9.00  | 8.00/9.05  | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00       | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 8.03       | 8.67       | 8.18        | 8.70        | 8.68        | 8.27        |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.19       | 8.60       | 8.56        | 8.98        | 8.94        | 8.94        |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..         | 8.77        | ..          | 9.12        | ..          |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.11       | 8.58       | ..          | 8.99        | ..          | 8.93        |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.18       | 8.69       | 8.98        | 9.02        | 9.10        | 8.74        |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमियम</b>       |            |            |             |             |             |             |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 54.53      | 61.90      | 62.73       | 63.06       | 63.02       | 62.39       |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 70.89      | 83.88      | 84.06       | 84.95       | 84.92       | 84.98       |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमियम 1-माह              | 7.26       | 8.53       | 8.61        | 8.94        | 9.14        | 9.04        |
| 3-माह                                               | 6.42       | 8.53       | 8.80        | 9.13        | 9.14        | 8.59        |
| 6-माह                                               | 6.24       | 8.08       | 8.42        | 8.63        | 8.79        | 8.43        |

## 6. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |       |           |      |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------|----------------------|-------|-----------|------|--------------|------|----------|-------|
|                                                    | 2013           |           | पखवाड़ा                   |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |      | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                    |                |           |                           |      | 2012-2013            |       | 2013-2014 |      | 2012         |      | 2013     |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 15 नवम्बर | राशि                      | %    | राशि                 | %     | राशि      | %    | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2         | 3                         | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8    | 9            | 10   | 11       | 12    |
| एम३                                                | 83,820.2       | 90,741.4  | -75.4                     | -0.1 | 6,091.6              | 8.3   | 6,921.2   | 8.3  | 9,404.7      | 13.4 | 11,001.4 | 13.8  |
| 1 घटक                                              |                |           |                           |      |                      |       |           |      |              |      |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 11,447.4       | 12,293.2  | 273.6                     | 2.3  | 851.1                | 8.3   | 845.7     | 7.4  | 1,307.1      | 13.4 | 1,215.6  | 11.0  |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा                         | 7,469.6        | 7,352.1   | -210.0                    | -2.8 | -336.5               | -4.7  | -117.4    | -1.6 | 403.0        | 6.3  | 578.8    | 8.5   |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा                       | 64,870.9       | 71,057.7  | -135.2                    | -0.2 | 5,591.8              | 9.9   | 6,186.8   | 9.5  | 7,692.7      | 14.2 | 9,182.0  | 14.8  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                 | 32.4           | 38.5      | -3.8                      | -8.9 | -14.8                | -52.4 | 6.1       | 18.8 | 1.9          | 16.0 | 25.0     | 186.2 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |           |                           |      |                      |       |           |      |              |      |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 27,072.1       | 30,223.6  | 121.6                     | 0.4  | 2,748.3              | 11.6  | 3,151.6   | 11.6 | 4,229.6      | 19.0 | 3,758.4  | 14.2  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 5,905.8        | 7,076.9   | -11.2                     |      | 420.6                |       | 1,171.1   |      | 1,609.0      |      | 1,298.9  |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 21,166.3       | 23,146.8  | 132.8                     | 0.6  | 2,327.7              | 12.7  | 1,980.5   | 9.4  | 2,620.7      | 14.5 | 2,459.5  | 11.9  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 56,646.6       | 60,302.4  | -85.4                     | -0.1 | 3,182.9              | 6.4   | 3,655.8   | 6.5  | 7,617.5      | 16.9 | 7,535.1  | 14.3  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 30.6           | 38.2      | —                         |      | 2.2                  |       | 7.6       |      | 22.7         |      | -3.6     |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 56,616.1       | 60,264.2  | -85.4                     | -0.1 | 3,180.7              | 6.4   | 3,648.2   | 6.4  | 7,594.8      | 16.8 | 7,538.7  | 14.3  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 16,366.6       | 17,704.4  | 440.0                     | 2.5  | 812.0                | 5.3   | 1,337.8   | 8.2  | 355.4        | 2.2  | 1,454.6  | 9.0   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 153.4          | 162.3     | —                         | —    | 10.8                 | 8.0   | 8.9       | 5.8  | 16.4         | 12.7 | 17.0     | 11.7  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 16,418.5       | 17,651.3  | 551.5                     | 3.2  | 662.3                | 4.4   | 1,232.9   | 7.5  | 2,814.3      | 21.5 | 1,763.7  | 11.1  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 6,925.0        | 9,018.8   | 363.9                     | 4.2  | 1,115.1              | 18.5  | 2,093.8   | 30.2 | 1,379.0      | 23.9 | 1,865.3  | 26.1  |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |           | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                                  | 2013           |           | सप्ताह                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                                  |                |           |                           |      | 2012-2013            |       | 2013-2014 |       | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 29 नवम्बर | राशि                      | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                                  | 1              | 2         | 3                         | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10    | 11      | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 15,148.9       | 16,159.4  | 84.8                      | 0.5  | 151.1                | 1.1   | 1,010.5   | 6.7   | 554.3        | 4.0   | 1,744.8 | 12.1  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |           |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 11,909.8       | 12,612.5  | -93.4                     | -0.7 | 733.3                | 6.9   | 702.8     | 5.9   | 1,263.1      | 12.5  | 1,206.9 | 10.6  |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा                              | 3,206.7        | 3,468.0   | 139.6                     | 4.2  | -577.7               | -16.2 | 261.3     | 8.1   | -706.1       | -19.1 | 482.9   | 16.2  |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                               | 32.4           | 78.8      | 38.6                      | 95.9 | -4.5                 | -15.8 | 46.4      | 143.2 | -2.7         | -10.3 | 55.0    | 231.8 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |           |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 5,905.8        | 6,583.9   | -192.9                    |      | 1.0                  |       | 678.1     |       | 1,286.0      |       | 1,225.5 |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 5,905.0        | 6,584.3   | -192.9                    |      | 12.7                 |       | 679.3     |       | 1,296.3      |       | 1,227.4 |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 434.1          | 431.7     | -34.7                     |      | 196.2                |       | -2.4      |       | 244.2        |       | 147.4   |       |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 403.5          | 392.8     | -36.4                     |      | 181.3                |       | -10.7     |       | 207.0        |       | 163.1   |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 15,580.6       | 17,818.2  | 153.2                     | 0.9  | 1,014.5              | 6.9   | 2,237.6   | 14.4  | 302.7        | 2.0   | 2,081.8 | 13.2  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 153.4          | 162.3     | —                         | —    | 12.8                 | 9.5   | 8.9       | 5.8   | 18.4         | 14.3  | 15.1    | 10.2  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 6,925.0        | 8,836.7   | -159.2                    | -1.8 | 1,073.4              | 17.8  | 1,911.7   | 27.6  | 1,297.0      | 22.3  | 1,724.9 | 24.3  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ बिलियन)

| दिनांक         | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |            | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (तत्काल) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+4+5+7-2-6) |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|--------|----------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------|
|                | रिपो                  | रिवर्स रिपो | सावधि रिपो |        |                      | विक्रय        | क्रय |                                                       |
|                | 1                     | 2           | 3          |        |                      | 4             | 5    |                                                       |
| 25 नवम्बर 2013 | 411.50                | 0.01        | —          | 135.50 | 32.13                | —             | —    | 579.12                                                |
| 26 नवम्बर 2013 | 404.55                | —           | —          | 44.90  | 1.79                 | —             | —    | 451.24                                                |
| 27 नवम्बर 2013 | 412.05                | 3.75        | —          | 63.70  | —                    | —             | —    | 472.00                                                |
| 28 नवम्बर 2013 | 412.42                | 61.76       | —          | 60.50  | -26.00               | —             | —    | 385.16                                                |
| 29 नवम्बर 2013 | 188.42                | 30.40       | 385.02     | 86.50  | -42.64               | —             | —    | 586.90                                                |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2012         |              | 2013         |              | प्रतिशत अंतर |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                     | सितम्बर      | अक्तूबर      | सितम्बर      | अक्तूबर      | माह          | मार्च      | वर्ष        |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6          | 7           |
| <b>1 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>168.8</b> | <b>168.5</b> | <b>179.7</b> | <b>180.3</b> | <b>0.3</b>   | <b>6.0</b> | <b>7.0</b>  |
| 1.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 221.6        | 219.4        | 251.6        | 251.6        | 0.0          | 12.8       | 14.7        |
| 1.2 ईंधन और बिजली                                                   | 188.5        | 189.8        | 207.5        | 209.4        | 0.9          | 9.3        | 10.3        |
| 1.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 148.0        | 147.9        | 151.0        | 151.6        | 0.4          | 2.0        | 2.5         |
| <b>2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>124.0</b> | <b>124.9</b> | <b>136.2</b> | <b>137.5</b> | <b>1.0</b>   | <b>7.8</b> | <b>10.1</b> |
| 2.1 ग्रामीण                                                         | 125.6        | 126.6        | 137.8        | 139.4        | 1.2          | 8.7        | 10.1        |
| 2.2 शहरी                                                            | 121.9        | 122.6        | 134.0        | 135.1        | 0.8          | 6.8        | 10.2        |
| <b>3 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>215.0</b> | <b>217.0</b> | <b>238.0</b> | <b>241.0</b> | <b>1.3</b>   | <b>7.6</b> | <b>11.1</b> |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

## 11. वाणिज्यिक पेपर

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 1                       | 2                     |
| 4 अक्तूबर 2013  | 3,367.5                  | 319.2                   | 9.45 - 10.63          |
| 18 अक्तूबर 2013 | 3,377.7                  | 32.5                    | 8.90 - 9.85           |

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 1                       | 2                        |
| 15 अक्तूबर 2013 | 1,363.1                  | 452.7                   | 8.03 - 12.53             |
| 31 अक्तूबर 2013 | 1,574.5                  | 337.2                   | 8.63 - 12.39             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह  |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | 30 नवम्बर 2012 | 22 नवम्बर 2013 | 29 नवम्बर 2013 |
|                          | 1              | 2              | 3              |
| 1 मांग मुद्रा            | 207.1          | 209.1          | 250.9          |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 103.2          | 75.3           | 87.3           |
| 3 सीबीएलओ                | 709.6          | 1,257.6        | 1,187.0        |
| 4 बाजार रिपो             | 909.4          | 786.2          | 953.7          |
| 5 कारपोरेट बांड में रिपो | —              | 0.5            | —              |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 29 नवम्बर 2013 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                   | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                   | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय         | —           | —                 | 750.4         | 754.2   |
| 91-दिवसीय         | 281.7       | 196.2             | 596.1         | 1,485.2 |
| 182-दिवसीय        | 173.1       | 254.7             | 9.8           | 650.2   |
| 364-दिवसीय        | 251.6       | 592.5             | 8.6           | 1,348.6 |
| सीएमबी            | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई समग्र राशि            |                                |         | जुटाई गई निवल राशि             |                                |         |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
|                  | 2013-14<br>(29 नवम्बर 2013 तक) | 2012-13<br>(30 नवम्बर 2012 तक) | 2012-13 | 2013-14<br>(29 नवम्बर 2013 तक) | 2012-13<br>(30 नवम्बर 2012 तक) | 2012-13 |
|                  | 1                              | 2                              | 3       | 4                              | 5                              | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 4,500.0                        | 4,610.0                        | 5,580.0 | 3,752.7                        | 3,703.8                        | 4,673.8 |
| 2. राज्य सरकारें | 1,117.1                        | 1,114.1                        | 1,772.8 | 801.3                          | 996.1                          | 1,466.5 |

स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 950 तथा विदेश में 45 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।